

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2015—आषाढ़ 19, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 24th June 2015

F-02(A)01-2014-Three-Jail.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Jail (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule-I, for serial number 21 and entries relating thereto the following serial number and entries

relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of post included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 21	Medical Officer	50	Class-II	15600—39100+5400 Grade Pay	State Government."

2. In Schedule-II, for serial number 21 and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total No. of Duty Posts	Percentage of the No. of duty posts to be filled in		
				By Direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By Promotion of substantive member of the service [See rule 6(1) (b)]	By transfer of Service from other services [See rule 6(1) (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
" 21	Jail Department	Medical Officer	50	-	-	On contractual appointment (except Jails in Divisional Headquarters Bhopal, Indore, Gwalior & Jabalpur) by Director General, Prisons and Correctional Services if posts cannot be filled by deputation from Public Health & Family Welfare Department."

3. In Schedule-III, after serial number 5 the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Minimum Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 6	Jail Department	Medical Officer	21 years	65 years	M.B.B.S. degree recognized by Indian Medical Council and registration in Madhya Pradesh Medical Council."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PREMCHAND MEENA, Principal Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्र. एफ-1(ए) 4-2015-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार में, कालम तीन में, पद “सहायक श्रम अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक” के सामने उसके कालम (2) में उल्लिखित अंक तथा शब्द “5 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “3 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

टिप्पण.—अनुभव में शिथिलीकरण दिनांक 1-1-2015 से 31-12-2016 तक दो वर्ष के लिये केवल एक बार दिया जाएगा.

No. F-1(A) 4-2015-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Labour Service (Gazetted) recruitment Rules, 1985, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV, in column (3), against the post “Assistant Labour Officer/ Office Superintendent”, mentioned in column (2) thereof for the figure and word “5 years”, the figure and word “3 years” shall be substituted.

Note.—This relaxation in experience shall be given for two years with effect from 1-1-2015 to 31-12-2016 for a one time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.